



(Formerly known as Meenakshi Enterprises Limited)
A NBFC listed at Bombay Stock Exchange

CIN: L51102TZ1982PLC029253

Regd Office: Shop No 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex,
No 3 Bus stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy,
Coimbatore, Tamil Nadu, India-641006
Email: investor@jmjfintechltd.com
Mob:7395922291/92

January 08, 2026

To,
The Manager
BSE Limited (BSE)
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400001,
Maharashtra, India,

BSE Scrip Code: 538834 and 890222

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper advertisement for Corrigendum to First and Call Money Notice of ₹7.35/- (ISIN: IN9242Q01014) for the purpose of Rights issue of JMJ Fintech Limited ("the Company") in accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref.: Issue of up to 2,56,00,000 partly paid-up Equity Shares of face value of ₹10 each of JMJ Fintech Limited ("Company") ("Rights Equity Shares") for cash at a price of ₹10.50/- Each (including a premium of ₹0.50/- per rights equity share), aggregating up to ₹ 2688.00 Lakhs on a rights basis to the eligible equity shareholders of the Company.

Pursuant to the provisions of the Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement with respect to Corrigendum to First and Final Call Money Notice for the purpose of payment of First and Final Call to the holders of partly paid up equity shares held as on the Record Date i.e., Friday, December 19, 2025 payable from Tuesday, January 13, 2026 to Tuesday, January 27, 2026, as published in the following newspapers on January 08, 2026:

1. Financial Express- (English) National daily – All Editions
2. Jansatta- (Hindi) National Daily – All Editions
3. Makkal Kural – (Tamil) – Coimbatore Edition

The same are also being made available on the website of the Company i.e., www.jmjfintechltd.com.

Kindly take note of the same in your records.

Thanking You

Yours Faithfully,
For, JMJ Fintech Limited

Joju Madathumpady Johnny
Managing Director
DIN:02712125

Encl. As Above.



Rupee rises 29 paise to 89.89 on RBI intervention

ADHARAMRAJ DHUTIA
Mumbai, January 7

THE RUPEE ENDED higher for second consecutive session on Wednesday on likely dollar sales from state-run banks, which traders said could be on behalf of the central bank, helping reverse the pressure from slightly softer Asian cues.

The rupee gained 29 paise, or 0.3%, to close at 89.89, its highest level in a week, after closing at 90.1650 in the previous session. It hit an intraday high of 89.86.

The Reserve Bank of India (RBI) resorted to heavy intervention to support the rupee once again, nine traders said, and that pushed the currency to below the 90-per-dollar mark.


Wednesday's intervention followed a familiar playbook that the RBI used repeatedly last year, when it stepped in aggressively to push the rupee higher, aiming to disrupt one-way moves.

Previous interventions came amid a build-up of speculative long dollar positions and expectations of consistent rupee depreciation, according to bankers.

Before the central bank intervention on Wednesday, the rupee had fallen about 1% over the past two weeks.

The currency rupee continues to face headwinds from persistent foreign selling of equities, a trend that has extended from 2025 into the New Year, alongside lingering uncertainty over a US-India trade deal.

"Going forward, resilient macro fundamentals and an improvement in capital flows



as US-related trade uncertainty eases should reduce pressure on the rupee. However, we expect the currency to remain range bound, as the RBI rebuilds forex reserves if portfolio inflows recover," Goldman Sachs said in a note.

UBS sees rupee at 92 by March

UBS Investment Bank expects the rupee to weaken to 92 per US dollar by March, making the case that any relief from a potential US-India trade deal announcement would likely be undermined by the central bank replenishing foreign exchange reserves.

From near-90-per-dollar levels currently, UBS's forecast implies a roughly 2% depreciation over three months, well beyond the March forward rate that's near 90.55 and a marked change from its November 2024 call of 87. —REUTERS

Aditya Birla AMC sees 12% return from equities



ANANYA GROVER
Mumbai, January 7

ADITYA BIRLA SUN Life AMC expects equity returns in 2026 to be broadly in line with the previous calendar year, at around 10-12%, and believes large-cap stocks are better positioned at this stage of the cycle, as the phase of indiscriminate outperformance in small and mid-caps is behind.

The AMC said that while the rupee could pose a short-term challenge, it represents a long-term opportunity. A trade deal, it added, would help arrest excessive currency depreciation and could act as a trigger for renewed foreign institutional investor (FII) inflows. It mentioned that investors could have a better experience this year, driven by stronger earnings growth, lower rupee depreciation and new listings.

Krishnan said the aspect really is that which part of the market is likely to capture the upside because a lot of money seems to have gone into areas, sectors, and themes which played out wonderfully from 2020-24 but not necessarily moved to the new themes. He noted that the share of MF ownership in top 100 significantly lower than profit pool share of top 100 and said that there has been a significant amount of money that has been chasing small caps in the last two-three years.

Indian Gas Exchange to launch IPO by Dec

INDIAN GAS EXCHANGE, the country's first online delivery-based trading platform for natural gas, is likely to launch an initial public offering (IPO) by December this year, its Managing Director and CEO Rajesh Kumar Mediratta said on Wednesday. Indian Energy Exchange (IEX) holds a 47% stake in IGX, and as per regulations, it has to bring it down to 25%. "As much as 22% equity shares are likely to be offered in the share sale," he said. —PTI

DSM FRESH FOODS LIMITED
CIN: L52203DL2015PLC280514
Registered Office: 115-116, First Floor, Vishal Tower, District Centre, Janakpuri B-1, West Delhi, India, 110058
Website: www.zappfresh.com, Email: finance@zappfresh.com

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110, 118 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (Act) (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SSS-2"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding General Meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide General circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 (Collectively referred as "MCA Circulars"), to transact the special business as set out hereunder by passing a special Resolution by way of postal ballot only by voting through electronic means (remote e-voting).

S. No.	Brief Description of Resolution	Type of resolution
1	Variation In the Objects / Terms of Utilisation of The Initial Public Offering ("IPO") Proceeds	Special Resolution
2	Alteration In the object clause of the company	Special Resolution

Members are hereby informed that pursuant to the MCA Circulars, the Company on Wednesday, January 07, 2026 has completed the dispatch of the postal ballot Notice dated December 31, 2025 electronically to all the members of the Company, whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Cut-off date i.e., January 02, 2026 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with the Depositories through their respective Depository Participants and with the Company's Registrar and Share Transfer Agents i.e., Maashila Securities Private Limited (RTA). A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as information purpose only.

The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement has been uploaded on the website of the Company <https://www.zappfresh.com>, and can be accessed from the website of BSE Limited at www.bseindia.com and is also available on the website of "CDSL" www.evotingindia.com.

In compliance with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and the relevant Circulars, the Company is providing facility for voting through e-voting to enable its members to cast their votes electronically in respect of the Resolutions as set out in this postal Ballot Notice. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and has also made necessary arrangements with its RTA to facilitate e-voting. In terms of MCA Circulars, Voting can be done only through remote e-voting. E-voting will commence at 09:00 a.m. (IST) on Thursday, January 8th, 2026 and end at 05:00 p.m. (IST) on Friday, February 06, 2026.

The resolution under the postal ballot notice, if passes by the members, shall be deemed to have passed on the last date specified by the Company for e-voting i.e. Friday, February 06, 2026.

Members are requested to update their email id & mobile no. with their respective Depository Participant (DP) which is mandatory for e-voting through Depository.

The Board of Directors of the Company on December 31, 2025 appointed Rawal & Co, Company Secretaries (Membership No. 43231 & CP No. 22687) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot together with the Scrutinizers Report will be posted on the Company's website <https://www.zappfresh.com> and will also be communicated to the BSE Limited on or before Tuesday February 10, 2026.

If you have any queries or issues regarding postal ballot & e-voting from the CDSL e-voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurix, Mafatlal Mills Compounds, N.M.Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

Helpdesk for individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000

By order of Board of Directors
Sd/-
Deepanshu Manchanda
Managing Director
DIN: 07108044

Place: New Delhi
Date: 08.01.2026

JMJ Fintech Ltd.
Corporate Identification Number: L51102Z1982PLC029253
Registered Office: Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006
Telephone : 7395922291; E-mail : investor@jmfintechltd.com; Website : www.jmfintechltd.com
Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer

This advertisement is for intimation purpose only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated July 12, 2025 filed with BSE Limited ("BSE") (hereinafter referred to as "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

CORRIGENDUM TO THE FIRST AND FINAL CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN-IN9242Q01014) OF JMJ FINTECH LIMITED ("COMPANY") HELD AS ON THE RECORD DATE i.e., FRIDAY, DECEMBER 19, 2025

- The Company has completed the dispatch of First and Final Call Notice to the shareholders of partly paid-up equity shares, whose names appeared on the Register of Members as on the record date i.e., Friday, December 19, 2025 ("First and final Call Record Date") for making the payment of First and Final Call money of ₹ 7.35 per share (comprising ₹ 7.00 towards paid-up per share and ₹ 0.35 towards premium) per partly paid-up Equity Shares ("First and Final Call").
- Pursuant to this Corrigendum to the First and Final Call Notice ("Corrigendum"), the period for payment of money for the First and Final Call shall now commence from Tuesday, January 13, 2026 (instead of Wednesday, January 07, 2026) and shall continue until Tuesday, January 27, 2026. You are accordingly requested to make the payment of money for the First and Final Call between Tuesday, January 13, 2026 and Tuesday, January 27, 2026 (both days inclusive).
- The First and Final Call Notice and this Corrigendum, along with detailed instructions, ASBA application form and payment slip can be downloaded from the Company's website at www.jmfintechltd.com and on the website of Purva Sharegistry (India) Private Limited ("RTA") at www.purvashare.com or from the website of the Stock Exchanges.
- The payment of First and Final Call money can be made by choosing any one of the following modes:

Amount Due	₹ 7.35/- per partly paid-up equity share held by shareholders as on the Record Date.
Call Payment Period	From Tuesday, January 13, 2026 To Tuesday, January 27, 2026 Duration 15 days
Modes of Payment	Online ASBA - Through an online Portal of the SCSBs. Physical ASBA - By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs. 3-in-1 online trading demat bank account

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=RecognisedFpries&intmid=34> to refer to the list of existing SCSBs [Self-Certified Syndicate Banks].

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/POD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024 shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for First and Final Call Money of JMJ Fintech Limited. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

- Please note that the trading of ₹ 07.35 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN: IN9242Q01014) has been suspended on the Stock Exchange with effect from Friday, December 19, 2025 on account of the First and Final Call. Eligible Shareholders who pay the First and Final Call on their Rights Equity Shares can expect credit of the fully paid-up equity shares of the Company and the commencement of trading on such fully paid-up equity shares within a period of 7-8 weeks from the last date for making the payment of First and Final Call i.e., within 7-8 weeks from Tuesday, January 27, 2026.
- Please also note the consequences of failure to pay First and Final Call Money is given below:
 - Interest @ 10.00% (Ten per cent only) p.a. will be payable for delay in payment of First and Final Call beyond Tuesday, January 27, 2026 till the actual date of payment;
 - The Company shall be entitled to deduct from any future dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest, due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
 - The partly paid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon may be liable to be forfeited on failure to pay the first call, in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.
- Eligible Shareholders may also note that:
 - FAQ's on First and Final Call are available on the website of the Company www.jmfintechltd.com and on the website of Purva Sharegistry (India) Private Limited ("RTA") at www.purvashare.com
 - You may also seek clarifications on any query related to the payment of First and Final Call on the Mobile Number +917395922291/92 (Operational from Monday to Saturday from 9 AM to 5 PM).
 - (b) All correspondence in this regard may be sent to RTA at below mentioned addresses/ email address:

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India;
Tel. : 022-23010771 / 49614132;
E-mail : support@purvashare.com
Website : www.purvashare.com
Contact Person : Ms. Deepali Dhuri
SEBI Registration Number : INR000001112

For, JMJ Fintech Limited
Sd/-
Jojo Madathumpady Johny
Managing Director
DIN : 02712125

Place : Coimbatore
Date : January 06, 2026

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED
Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Tel No.: 033-22489731 / 9538; Website: www.shentracon.co; Email: investor@shentracon.co

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of SHENTRACON CHEMICALS LIMITED ("SCL" or "Target Company") on the Open Offer made by Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanishh Kanakraj Jaain ("Acquirer 2") (hereinafter referred to as "Acquirers") to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

Sl. No.	Date	Thursday, January 08, 2026
1.	Date	Thursday, January 08, 2026
2.	Name of the Target Company	Shentracon Chemicals Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanishh Kanakraj Jaain (Acquirer 2) pursuant to the provisions of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the fully Paid up Equity and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) per Equity Share, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer	Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanishh Kanakraj Jaain (Acquirer 2)
5.	Name of the Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited CIN: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cam's Industrial Estate, Walbhal Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Ashish Bakliwal, Chairperson 2. Ms. Madhuti Toshniwal, Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship), if any	a) IDC members are Independent and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC member holds Equity Shares in the Target Company. c) None of the IDC member holds any contract or relationship with the Target Company at present.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded any Equity Shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship)	None of the IDC members have any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Nil
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable	The IDC members have reviewed the following documents issued by the Manager on behalf of the Acquirer (collectively referred to as the "Offer Documents"): (a) the Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025; (b) the Detailed Public Statement published in newspaper on Friday, September 12, 2025; (c) the Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025; and (d) the Letter of Offer dated Monday, January 05, 2026. The IDC members believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(i)(j) of SEBI (SAST) Regulations. b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.
15.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Shentracon Chemicals Limited
Sd/-
Ashish Bakliwal
(Chairperson of IDC)

Place: Mumbai
Date: January 07, 2026

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai - 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Quant Fund, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund, ICICI Prudential Flexicap Fund and ICICI Prudential Housing Opportunities Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on January 12, 2026*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{5a}	NAV as on January 6, 2026 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Quant Fund		
IDCW	1.35	16.44
Direct Plan – IDCW	1.35	17.11
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund		
IDCW	1.50	19.68
Direct Plan – IDCW	1.50	20.55
ICICI Prudential Flexicap Fund		
IDCW	1.50	18.32
Direct Plan – IDCW	1.50	19.39
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund		
IDCW	1.30	16.31
Direct Plan – IDCW	1.30	17.14

\$ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Place: Mumbai Sd/-
Date : January 7, 2026
Authorised Signatory
No. 005/01/2026

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicipruamc.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all relevant documents carefully.

Kolkata

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष कंपनी याचिका संख्या सीपी(सीएए) 94 (एनडी)/2025 संबंधित
कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए) 60 (एनडी)/2025
के मामले में: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत याचिका और
समामेलन के मामले में
1. मिडास फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: आर-3, प्लेट नंबर 5, नेहरू एक्स्लेव'री कालकाजी, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019
...याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/स्थानांतरणकर्ता कंपनी
और

1. ड्राई ब्लैंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड,
आर-3, प्लेट नंबर 5, नेहरू एक्स्लेव में पंजीकृत कार्यालय,
नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019

... याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2/हस्तांतरित की कंपनी
के बीच
और
उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार

याचिका की सूचना
मिडास फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) को ड्राई ब्लैंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरित की कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ विलय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका पर 18 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई और उक्त याचिका 26 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ को समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उसके दुरादे की सूचना, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजनी चाहिए, ताकि याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहुंच सके। जहाँ यह याचिका का विरोध करना चाहता/चाहती है, जहाँ विरोध के आधार या उसके शपथ पत्र की एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरित द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो इसकी मांग करता है, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रदान की जाएगी।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.01.2026
हस्ता./—
सौगत सिन्हा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के वकील
मैसर्स अर्था एडवोकेट्स एंड लीगल एडवाइजर्स
सी-4 बैसमेंट, निजामीन ईस्ट, नई दिल्ली- 110013
ईमेल- info@artha-legal.com

समक्ष नेशनल कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, नई दिल्ली कोर्ट-IV प्रकाशन सूचना
कॉर्पोरेट देनदार-मेसर्स फ़िनिटेडि एट बैस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ध्यानार्थ (मेसर्स फ़िनिटेडि एट बैस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड [CIN: 52590DL2016PLC290712] द्वारा उधार चुकाने में डिफॉल्ट के कारण टिवालियायन की कार्यवाही शुरू करना)
इन मामलों में: सीपीआई/647/एनडी/2025
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनान
मेसर्स फ़िनिटेडि एट बैस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
कारपोरेट देनदार

प्रारंभिक विवरण	
1. कारपोरेट देनदार का नाम	मेसर्स फ़िनिटेडि एट बैस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: 52590DL2016PLC290712) (PAN -AAGCC3519B)
2. कारपोरेट देनदार का पता	फ़ाउंड फ्लोर, एक्स न.1788/438,अंतोला फोतेहपुर बैरी, दक्षिण प्रविण दिल्ली-110074
3. प्रकाशन के माध्यम से सेवा की अनुमति देने वाले अद्वितीय की तिथि	मनीषपुर एनसीएलटी, कोर्ट -IV, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2025 सीपी (आईडी)-647/एनडी/ 2025 में
4. अंतरिम सम्मान फौदर का विवरण	बी अनिल कोहली आईसीआईआई एजीकरण संख्या आईसीआईआई/आईपीए-003 0/आईपीए-1/2020-2023/50013
5. अंतरिम सम्मान फौदर का पता और ई-मेल पता जहाँ कि बॉट के पास पहुंचेंगे है	एआरसीके रिसोल्यूशन प्रोपेगनस्य एल्यूमनी 409,अंसल भवन 16फ़्लैजी मार्ग कनौट प्लेस नई दिल्ली- 110001 ईमेल :insolvency@arck.in

जहाँकि उद्घुक्त वित्तीय लेनदार ने टिवालियायन और टिवालिया संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत टिवालियायन और टिवालिया (निर्णय प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए, वह आवेदन आपके विरुद्ध कॉर्पोरेट टिवालियायन सम्मान अधिका (सीआईआईए) शुरू करने की मांग करते हुए दायर किया है, और चुकि न्यायाधिकरण को वह संतोषजनक रूप से निहद हो गया है कि आपका सम्मान तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन/प्रकाशन के माध्यम से आपको 09.01.2026 को दोपहर 2-30 बजे न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश देता है। न्यायाधिकरण ने उतर दायित्व करने के लिए एक साक्ष्य का समय भी दिया है। कृपया ध्यान दें कि यदि आप निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुमतिव्ति में ही किया जाएगा।

दिनांक: 08.01.2026
स्थान: नई दिल्ली
प्रारुक्ति अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
(वित्तीय लेनदार)

relipay A BRAND OF RNF	आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड CIN: L74104DL2015PLC286390 पता: यूजी-5, रेलीप हाउस, प्लॉट संख्या 42, डीएलएफ ओजीफिक क्षेत्र, कोर्लॉ नगर, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110015 ई-मेल: cs@rnfservices.com वेबसाइट: www.rnfservices.com
----------------------------------	--

आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड की असाधारण आम बैठक की सूचना
एलएनएफ सूचित किया जाता है कि मेसर्स आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड (‘कंपनी’) के सदस्यों की **असाधारण आम बैठक** (इंजीएम/बैठक) **शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे** (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक **07 जनवरी 2026 की इंजीीएम सूचना** में उल्लिखित कार्यों पर विचार कर उनका निपटारा किया जाएगा।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025, जिसे उक्त विषय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (“एमसीए परिपत्र”) के साथ पढ़ा जाए, तथा **सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024**, जिसे उक्त विषय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (“सेबी परिपत्र”) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक (इंजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी की इंजीएम उपर्युक्त परिपत्रों, **कंपनी अधिनियम, 2013**, तथा **सेबी सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, विनियम, 2015** के प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इंजीएम की सूचना दिनांक 07 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिसके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.rnfservices.com तथा एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

यदि डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपने-अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेंट पंजीकृत कराएं।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसकर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अद्यतन नहीं हैं, वे इंजीएम सूचना की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने हेतु cs@rnfservices.com पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी से अनुरोध कर सकते हैं।

सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से इंजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं। इंजीएम में भाग लेने संबंधी निर्देश इंजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना हेतु गिनांकित माना जाएगा।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को इंजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting) की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी इंजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-मतदान/इंजीएम के दौरान ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया इंजीएम की सूचना में उल्लिखित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संपरित्त कंपनियों (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (यथासंशोधित), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (यथासंशोधित) तथा उपर्युक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को रेशनल सिम्युलैटिड डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदत्त ‘रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting)’ की सुविधा प्रदान करते हुए सूत्र है, ताकि वे इंजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों/प्रस्तावों पर अपने मतदान अंशिक का प्रयोग कर सकें। इंजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर रिमोट ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से तथा इंजीएम की तिथि को स्वतः/बैठक के दौरान ई-मतदान-दोनों सुविधायें NSDL द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- इंजीएम की सूचना में उल्लिखित विशेष कार्य का निपटारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जाएगा।
- रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting) मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को प्रातः 09:00 बजे (IST) से प्रारंभ होगा।
- रिमोट ई-मतदान गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को सां० 05:00 बजे (IST) समाप्त होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान अथवा इंजीएम में मतदान हेतु वास्तव निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 होगी।
- ऐसे व्यक्तिगत शेयरधारक, जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करते हैं और जिन्होंने सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त कर कट-ऑफ तिथि को सदस्यता प्राप्त की है, वे इंजीएम की सूचना में दिए गए ‘NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचें’ शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित वर्णों का पालन कर सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं किया है, उन्हें इंजीएम के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
- जिन सदस्यों ने पहले ही रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना मत डाल दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इंजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु इंजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- केवल वही व्यक्ति, जिसके नाम कट-ऑफ तिथि, अर्पित शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को सदस्यों के रजिस्ट्रार में अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसकर एजेंट (RTA) द्वारा संपादित लाभकारी स्वामियों के रजिस्ट्रार में अथवा डिपॉजिटरी से प्राप्त सूचना के अनुसार दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-मतदान की सुविधा का उपयोग कर या इंजीएम में मतदान कर सकेंगे। सदस्य दिनांक 07 जनवरी 2026 को इंजीएम सूचना के नोटस अनुभाग में उल्लिखित विधि एवं निर्देशों का पालन करते हुए रिमोट ई-मतदान अथवा इंजीएम के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार की शंका/प्रश्न के लिए, सदस्य शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं ई-मतदान उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है, का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 022-48387000 / 022-24997000 पर संपर्क कर सकते हैं, या सुभी पसंदी मूक, वरिष्ठ प्रबंधक, को evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी सचिव को cs@rnfservices.com पर या पंजीकृत कॉर्पोरेट पते पर भी लिख सकते हैं।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएँ आदि ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (DPs) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

कृते आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./—
मोहित चौहान
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 07.01.2026
स्थान: नई दिल्ली

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED		
Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449		
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001		
Tel No.: 033-22489731 / 9538; Website: www.shentracon.co; Email: investor@shentracon.com		
Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of SHENTRACON CHEMICALS LIMITED ("SCL" or "Target Company") on the Open Offer made by: Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2) (hereinafter referred to as "Acquirers") to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto ("SEBI" (SAST) Regulations).		
1.	Date	Thursday, January 08, 2026
2.	Name of the Target Company	Shentracon Chemicals Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2) pursuant to the provisions of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the fully Paid up Equity and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) per Equity Share, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer	Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2)
5.	Name of the Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited. CIN: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walthat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Ashish Bakliwal, Chairperson 2. Ms. Madhuni Toshniwal, Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship), if any	a) IDC members are Independent and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC member holds Equity Shares in the Target Company. c) None of the IDC member holds any contract or relationship with the Target Company at present.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded any Equity Shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship)	None of the IDC members have any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Nil
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable	The IDC members have reviewed the following documents issued by the Manager on behalf of the Acquirer (collectively referred to as the "Offer Documents"): (a) the Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025; (b) the Detailed Public Statement published in newspaper on Friday, September 12, 2025; (c) the Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025; and (d) the Letter of Offer dated Monday, January 05, 2025. The IDC members believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 21(y) of SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.
15.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in, or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Shentracon Chemicals Limited
Sd/-
Ashish Bakliwal
(Chairperson of IDC)

Place: Mumbai
Date: January 07, 2026

P.M. TELELINKS LIMITED
Registered Office : 1-7-241/11/D, Ramalaya, 3RD Floor S.D.Road, Hyderabad, Secunderabad, Telangana, India, 500003
CIN: L27105TG1980PLC002644 Tel. No.: 040-40176211, 66665929; Website: www.pmtele.com


Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC), constituted by the Board of Directors of P.M. Telelinks Limited on the Open Offer made by BSL Infrastructure Limited (Acquirer) for acquisition of up to 26,19,500 (Twenty-Six Lakh Nineteen Thousand and Five Hundred) Equity Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital from the public shareholders of the P.M. Telelinks Limited (the "Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

1	Date	06th January, 2026
2	Name of the Target Company (TC)	P.M. Telelinks Limited
3	Details of the Offer pertaining to TC	The offer is being made by the Acquirer in term of Regulation 3(1) and Regulation 4 read with other provisions of the SEBI SAST Regulations, 2011 for the acquisition of upto 26,19,500 (Twenty-Six Lakh Nineteen Thousand and Five Hundred) Equity Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital from the public shareholders of the P.M. Telelinks Limited
4	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	BSL Infrastructure Limited (Acquirer). There is no other person is acting in concert with the Acquirer for the purposes of this open offer.
5	Name of the Manager to the offer	CapitalSquare Advisors Private Limited 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (E), Mumbai – 400 093, Maharashtra, India Telephone Number: 022 6684 9999/ 022 6684 9948 Email Address: mb@capitalsquare.in Website: www.capitalsquare.in SEBI Registration Number: INM000012219 Validity: Permanent Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863
6	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Following stated are Members of the Committee of Independent Directors of the Target Company (IDC Members'): [Name of the IDC Member Designation 1. Mr. Patlolla Laxmi Kanth Reddy Chairperson 2. Mr. Sripal Dadigala Member
7	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	All members of the IDC were present at the meeting and the recommendations were approved unanimously by them. a) IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC Members are holding any Equity Shares in the Target Company. None of the IDC Members hold any contracts or any relationship, nor are they related in anyway with the Target Company other than acting in directorship in the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members hold any Equity Shares/ other securities in the Target Company and hence have not traded in the Equity shares of the Target Company.
9	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC (a) are directors on the boards of the Acquirers: (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirers; and (c) have any contracts/relationship with the Acquirers
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable.
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	On perusal of the aforesaid Offer Documents, the IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.
12	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	Based on the review of the Offer Documents, the members of IDC have considered the following for making recommendations: a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the opinion that the Offer Price of ₹ 68.1/- (Six Rupees and Eighty-One Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
13	Disclosure of Voting Pattern of the IDC Meeting	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.
14	Details of Independent Advisors, if any	None
15	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in, or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and behalf of the Committee of Independent Directors of
P.M. TELELINKS LTD
Sd/-
Mr. PATLOLLA LAXMI KANTH REDDY
Chairperson
Committee of IDC
DIN: 07169994

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी- चित्तौरा, बहराइच पत्रांक 197६/पन्‍डरा – लि०/वृक्ष नीलामी–सूचना /2025–2६ दिनांक 30 दिसम्बर, 2025
नीलामी सूचना
एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड चित्तौरा के कार्यालय परिसर में लगे 202 यूकेलिप्टस (कुल – 202 पेड़ जिसका मूल्यांकन मु0–619940–00रु0 है) वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28.01.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे जिला स्तर से अधिकृत अधिकारी तथा वन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा विकास खण्ड परिसर में सम्पन्न होगी। वृक्षों को किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
1. बोली लगाने वाले व्यक्ति को मु0 50000.00 रुपया विकास खण्ड चित्तौरा में कार्यरत कैशियर के पास जमानत के रूप में नकद जमा करना होगा, तभी वह बोली ला सकता है और उसकी बोली मान्य होगी।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की जमानत के रूप में जमा धनराशि का समायोजन करते हुये शेष धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम दो कार्य दिवसों में जमा करना होगा। अन्यथा की दशा में जमानत राशि जम्त कर ली जायेगी।
3. बोली बोलने के समय वही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है जिस व्यक्ति द्वारा बोली हेतु निर्धारित जमानत धनराशि जमा की जायेगी।
4. समस्त वृक्षों को तीन दिवस के अन्दर जड़ सहित उठान करना होगा यदि जड़े नही निकाली जाती है तो जड़ों की निकासी की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार के जमानत से काट ली जायेगी।
5. वृक्ष कटान में यदि कार्यालय भवन अथवा बाउन्ड्री की क्षति होगी तो उसकी मरम्मत/ निर्माण का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना बताये बोली को निरस्त कर दे अथवा नीलामी की तिथि एवं समय बढ़ा दें।
(विजय कुमार सिंह) खण्ड विकास अधिकारी, चित्तौरा-बहराइच


J&K Bank

जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
हज़िरत परसपियाय वरुली शहाबा
क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली प्लॉट नं० 132-134 सेक्टर 44, गुरुग्राम :
(टेली) 0124-4715800, ईमेल : iardel@jkbmail.com

ई-नीलामी सूचना (सफ़ेकी अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल संपत्ति / यों के विक्रयार्थ) 'परिचय, IV-ए, नियम ६(६) के प्रावधान का संर्षर्भ ले'

आम जनता और विशेष रूप से उच्चारकर्ताओं और गारंटर्स को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता (जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड) के पास गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति, जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता (जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी द्वारा सफ़ेकी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत देे लिया गया है, को "जैसा है" "जैसा है, वैसा ही" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" तथा "बिना किसी शिकायत के" के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित तिथियों पर, संबंधित उच्चारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर्स से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली की जाएगी। अरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली बयान राशि क्रमशः उल्लिखित है।

उच्चारकर्ता / गारंटर्स का नाम तथा पता 1. मैसर्स श्री पार्वन्नाथ पेपर, प्रोपे: श्री पारस जैन, यूनिट का पता 127/६, एफएफ बार्ड नं०. IX, गली बतारान, बरशाहुल्ला चौक, वायडी बाजार, दिल्ली-110006 2. श्री पारस जैन पुत्र स्व. श्री वी. के. जैन, निवासी- एफएफ, 2181, गली हनुमान प्रसाद, मस्जिद खजूर, वायडी बाजार, दिल्ली-110006 (उच्चारकर्ता / बंधककर्ता)। 3. श्रीमती रंजना जैन पत्नी श्री पारस जैन, निवासी- मकान नंबर 2181, गली हनुमान प्रसाद, मस्जिद खजूर, वायडी बाजार, दिल्ली-110006 (गारंटर)।	नीलामी के अंतर्गत प्रभावित आवृत्त सुख्या का विवरण "दुकान संख्या 127/६, प्रथम मंजिल पर स्थित, नगर निगम संख्या 127, वाढ संख्या IX, गली बतारान, बरशाहुल्ला चौक, वायडी बाजार, दिल्ली-110006 में स्थित संपत्ति का विवरण, जिसका साझा प्रवेश द्वार संपत्ति संख्या 118, मुख्य चोक बरशाहुल्ला चौक, वायडी बाजार से है, जिसका आधार क्षेत्र लगभग 6.90 वर्ग मीटर है, कुल क्षेत्रफल 76.23 वर्ग मीटर में से, जिसमें नदी की भूमि में आनुमानिक अधिकार शामिल है, छत के अधिकार, स्वामित्व, हित, दावे, सुव्यापिकार, विशेषाधिकार और सहायक वस्तुएं आदि को छोड़कर।"
--	--

आखिल मूल्य:	रु. 25.65 लाख	ईएमडी राशि : रु. 2.57 लाख	बोली बुद्धि : रु. 0.30 लाख
बकया देयराशिवां	रु 38.72 लाख	31 12 2025 के अनुसार	ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22-01-2026 अप. 3:00 से 4:00 बजे
सफर्क व्यक्ति एवं शाखा का नाम एवं नंबर :	रियाज अहमद मीर, मोबाइल नंबर : 9906980479, शाखा प्रबंधक, हज़िरत परसपियाय वरुली शहाबा। श्री आशीष कोल, मोबाइल नंबर 8700252377, शाखा प्रबंधक, वायडी बाजार, दिल्ली (दस्तावेजों के उद्देश्यार्थ)		
बरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य प्रेषण / वितरण आरटीसीएस द्वारा खाता संख्या में	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : JAKAACHAWRI, खाता संख्या : 0274072000000001		
शाखा : वायडी बाजार, दिल्ली खाता नाम : आरटीसीएस इंटरबैंक रसीदे			

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

- ई-नीलामी "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है" और "जो कोई शिकायत नहीं" के आधार पर आयोजित की जा रही है और ऑनलाइन संचालित की जाएगी। संपत्ति का पूरा विवरण और सभी नियम एवं शर्तें युक्त बोली दर्शन/प्राप्त वेबसाइट <http://sarfaesi.auctiontigner.net> से प्राप्त किया जा सकता है और नीचा दिया गया है (सफर्क व्यक्ति: राम शर्मा – 9978591888, सफर्क नंबर: 079-68136880) 68136837, मोबाइल : +91 9265562821/18, ईमेल : support@auctiontigner.net)।
- प्रामुख्य अधिकारी को संपत्ति शर्तों और जानकारी के अनुसार, यदि विशेष रूप से उल्लिखित जानकारी के अलावा, संपत्तियों पर कोई ऋणनगरी नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति बोली जमा करने से पहले, संपत्ति पर नगर, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति / यों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / ऋणों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जाँच करना बेहतर है। अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / ऋणों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। बोलीदाताओं को ऊपर दी गई संपत्तियों के विवरण, स्थिति या संरचना के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी / ऋणों / ई-नीलामी विज्ञापन केव बंध की ओर से कोई प्रीबिद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋणों के साथ बेची जा रही है।
- इच्छुक बोलीदाता अपने पेशकार और ईएमडी (मुद्रागत राशि) वेबसाइट <http://sarfaesi.auctiontigner.net> के माध्यम से जमा करें (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें) <http://sarfaesi.auctiontigner.net> पर नगर यूजीनिकल केक निपुणता प्रैक्टिस काफ़ि जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन आईडी और पारसर्वादा का उपयोग करना होगा। अरक्षित मूल्य का 10: ईएमडी (मुद्रागत राशि) ईएमडी/एन/आरटीसीएस (ईएमडी मुद्रागत वितरण कृपया ध्यान दिया गया है) का 21-01-2026 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले जमा है। कृपया ध्यान दें कि चेक / डिमांड ड्राफ्ट को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यह किसी भी शर्तियों परसंपत्तियों के प्रतिनिधित्व/वितरण के लिए कानूनी दायरा सुरक्षा हित प्रदर्शन अधिनियम, 2002 के तहत फॉरफ़ॉर निष्कासि में शामिल है / शर्तों के अधीन होगा।
- अधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए कानूनी नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई बात फॉरफ़ॉर निष्कासि किसी भी शर्तों के अधीन को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को रद्द/निलंबित या पूर्ण अधिकार है।
- ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें वेबसाइट <https://www.auctiontigner.net> पर उपलब्ध हैं।

दिनांक : 08-01-2026, स्थान : नई दिल्ली

प्रामुख्य अधिकारी, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या सीपी(सीएए) 94 (एनडी)/2025
संबंधित
कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए) 60 (एनडी)/2025

के मामले में:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत याचिका
और
समापन के मामले में

1. मित्रास फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: आर-3, प्लेट नंबर 5, नेहरू एक्स्लेव, कालकाजी, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019

याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/स्थानांतरणकर्ता कंपनी
और
उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार

याचिका की सूचना

मित्रास फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) को ड्राई ब्लेंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ विवाद करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका पर 18 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई और उक्त याचिका 26 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उसके द्वारा दी सूचना, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ शेजनी चाहिए, ताकि याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहुंच सके। जहाँ वह याचिका का विरोध करना चाहता/चाहती है, वहां विरोध के आधार या उसके शपथ पत्र की एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अयोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो इसकी मांग करता है, निर्धारित शुल्क के मुताबत पर प्रदान की जाएगी।

हस्ता: /—
सौगत सिन्हा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के यकीन
मैसर्स अर्था एडवोकेट्स एंड लीगल एडवाइजर्स
सी-4 बेंसरोट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली- 110013
ईमेल- info@artha-legal.com

समक्ष नेशनल कंपनी लां न्यायाधिकरण, नई दिल्ली कोर्ट-IV
प्रकाशन सूचना

कोर्पोरेट देनदार-मेसर्स डिपॉजिटरी एट बैरर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ध्यानार्थ (मेसर्स डिपॉजिटरी एट बैरर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: 52590DL2016PLC290712) द्वारा उच्च न्याय में डिपॉजिट के कारण दिवालियापन की घोषणाई शुरू करना)

उन मामलों में:
सीपी आईबी/647/एनडी/2025

आईबीआईआईआई बैंक लिमिटेड

धामा
मेसर्स डिपॉजिटरी एट बैरर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

कोर्पोरेट देनदार

प्रारंभिक विवरण

मेसर्स डिपॉजिटरी एट बैरर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: 52590DL2016PLC290712)
(PAN-AAGCC3519B)

प्रारंभिक देनदार का पता
प्राइड फ्लैट, ठसरा नं.1788/438,असला फ्लैटपुर बैनी, पश्चिम पश्चिम दिल्ली-110074

प्रकाशन के माध्यम से सेवा की अनुमति देने वाले अद्वारी की तिथि
18.12.2025 सीपी (आईबी)-647/एनडी/ 2025 में

अंतरिम समझौता पत्र का विवरण
बी जिनल कोर्टो आईबीआईआई पंजीकरण संख्या
आईबीआईआई/आईबीआई-003 0/आईबीआई-1/2020-2023/50013

अंतरिम समझौता पत्र का पता और ई-मेल पता जैसे कि बॉट के पास चरित्र है
एडवोकेट रीतुसुता प्रोफेशनल्स एलायन्स 409,अंसल भवन 16कैजी मार्ग कनेक्ट प्लेस नई दिल्ली-110001
ईमेल.insolvency@arck.in

जबकि प्रत्येक निजी लेनदार ने दिवालियापन और दिवालिया सूचना, 2016 की धारा 7 के तहत दिवालियापन और दिवालिया (निर्णय प्रविष्टि) को अर्पित। नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए, यह आवेदन आपके विरुद्ध कोर्पोरेट दिवालियापन समझौता प्रविष्टि (सीआईआईबी) शुरू करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया है, और चुनिंदा दिवालियापन को वह संतोखक रूप से निरुद्ध हो गया है कि अंतरिम समझौता करके से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए वह नोटिस दिवालियापन/प्रकाशन के माध्यम से आगे 09.01.2026 को दोपहर 2:30 बजे न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश देता है। न्यायाधिकरण ने उक्त निर्देश करने के लिए एक आदेश का समय भी दिया है। सुनवा ध्यान दें कि यदि आप निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपको अनुपस्थिति में ही किया जाएगा।

दिनांक: 08.01.2026
स्थान: नई दिल्ली

प्रारंभिक प्रविष्टि
आईबीआईआई बैंक लिमिटेड
(निजी लेनदार)

relipay

आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड

CIN: U74140DL2015PLC286390

पता: यूजी-5, रेलीप हाउस, प्लॉट संख्या 42, डीएलएफ ओपेनग्रीन क्षेत्र, कौली नगर, पश्चिम दिल्ली नई दिल्ली-110015

ई-मेल: cs@mfiservices.com | वेबसाइट: www.mfiservices.com

आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड की असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड (‘कंपनी’) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (इंजीएम/वेडक) शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अथ ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 07 जनवरी 2026 को इंजीएम सूचना में उल्लिखित कार्यों पर विचार कर उनका निपटारा किया जाएगा।

कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025, जिसे उक्त विषय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (‘एमसीए परिपत्र’) के साथ पढ़ा जाए, तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024, जिसे उक्त विषय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (‘सेबी परिपत्र’) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक (इंजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी की इंजीएम उपर्युक्त परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013, तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसृतन में वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इंजीएम की सूचना दिनांक 07 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mfiservices.com तथा एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

यदि डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपने-अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेंट पंजीकृत कराएं।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अद्यतन नहीं हैं, वे इंजीएम सूचना की सौफत कॉपी प्राप्त करने हेतु cs@mfiservices.com पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी से अनुरोध कर सकते हैं।

सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओवीएम) की सुविधा के माध्यम से इंजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं। इंजीएम में शामिल होने संबंधी निर्देश इंजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे। वीसी/ओवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना हेतु सम्मिलित माना जाएगा।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को इंजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting) की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी इंजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-मतदान/इंजीएम के दौरान ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया इंजीएम की सूचना में उल्लिखित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संप्रदित कंपनियों (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (एथसंशोधित), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 (एथसंशोधित) तथा उपर्युक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को रजेशन सिस्टम/डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदत्त ‘रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting)’ की सुविधा प्रदान करते हुए सूचित है, ताकि वे इंजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों/प्रस्तावों पर अपने मतदान जानकारी का प्रयोग कर सकें। इंजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर रिमोट ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से तथा इंजीएम की तिथि की स्थल/बैठक के दौरान ई-मतदान-दोनो सुविधाएं NSDL द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

I. इंजीएम की सूचना में उल्लिखित विशेष कार्य का निपटारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जाएगा।

II. रिमोट ई-मतदान (Remote e-Voting) मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को प्रातः 09:00 बजे (IST) से प्रारंभ होगा।

III. रिमोट ई-मतदान गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को सायं 05:00 बजे (IST) समाप्त होगा।

IV. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान अथवा इंजीएम में मतदान हेतु पत्राला निपटार करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 होगी।

V. ऐसे व्यक्तिगत शेयरधारक, जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियों धारण करते हैं और जिन्होंने सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त कर कट-ऑफ तिथि को सदस्यता प्राप्त की है, वे इंजीएम की सूचना में विद्यमान ‘NSDL ई-वोटिंग सिस्टम’ तक पहुंच कर शीघ्र के अंतर्गत उल्लिखित करणों का पालन कर सकते हैं।

VI. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं किया है, उन्हें इंजीएम के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

VII. जिन सदस्यों ने पहले ही रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना मत डाल दिया है, वे वीसी/ओवीएम के माध्यम से इंजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु इंजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

VIII. केवल वही व्यक्ति, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 की सदस्यों के रजिस्ट्रार में अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) द्वारा संश्लिष्ट लाभकारी स्थितियों के रजिस्ट्रार में अथवा डिपॉजिटरी से प्राप्त सूचना के अनुसार दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-मतदान की सुविधा का उपयोग कर या इंजीएम में मतदान कर सकेंगे। सदस्य दिनांक 07 जनवरी 2026 की इंजीएम सूचना के नोटस अनुभाग में उल्लिखित विधि एवं निर्देशों का पालन करते हुए रिमोट ई-मतदान अथवा इंजीएम के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

IX. किसी भी प्रकार की शंका/प्रश्न के लिए, सदस्य शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं ई-मतदान उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं, का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 022-48387000 / 022-24897000 पर संपर्क कर सकते हैं, या सूत्री पसलवी मॉड्यूल, जो evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी सचिव को cs@mfiservices.com पर या पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पंथिय में कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं आदि ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (DPs) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

कृते आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता: /—
मोहित चौहान
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 07.01.2026
स्थान: नई दिल्ली

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED
Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Tel No.: 033-22489731 / 9538. Website: www.shentracon.co, Email: investor@shentracon.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (‘IDC’) of SHENTRACON CHEMICALS LIMITED (‘SCL’ or ‘Target Company’) on the Open Offer made by Mr. Amit Lalit Jain (‘Acquirer 1’) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (‘Acquirer 2’) (hereinafter referred to as ‘Acquirers’) to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto (‘SEBI (SAST) Regulations’).

1.	Date	Thursday, January 08, 2026
2.	Name of the Target Company	Shentracon Chemicals Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Mr. Amit Lalit Jain (‘Acquirer 1’) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (‘Acquirer 2’) pursuant to the provisions of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 11,53,317 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the fully Paid up Equity and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) per Equity Share, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer	Mr. Amit Lalit Jain (‘Acquirer 1’) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (‘Acquirer 2’)
5.	Name of the Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited CIN: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Wajhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Ashish Bakliwal, Chairperson 2. Ms. Madhuri Toshiwal, Member
7.	IDC Member’s relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship), if any	a) IDC members are Independent and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC member holds Equity Shares in the Target Company. c) None of the IDC member holds any contract or relationship with the Target Company at present.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded any Equity Shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member’s relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship)	None of the IDC members have any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Nil
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair and reasonable	The IDC members have reviewed the following documents issued by the Manager on behalf of the Acquirer (collectively referred to as the ‘Offer Documents’): (a) the Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025; (b) the Detailed Public Statement published in newspaper on Friday, September 12, 2025; (c) the Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025; and (d) the Letter of Offer dated Monday, January 05, 2025. The IDC members believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations. Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(i)(g) of SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(i)(g) of SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.
15.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in, or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Shentracon Chemicals Limited
Sd/-
Ashish Bakliwal
(Chairperson of IDC)

Place: Mumbai
Date: January 07, 2026

P.M. TELELINKS LIMITED
Registered Office : 1-7-241/11/D, Ramalaya, 3RD Floor S.D.Road, Hyderabad, Secunderabad, Telangana, India, 500003
CIN: L27105TG1980PLC002644 Tel. No.: 040-40176211, 66665929;
Website: www.pmtele.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC), constituted by the Board of Directors of P.M. Telelinks Limited on the Open Offer made by BSL Infrastructure Limited (‘Acquirer’) for acquisition of up to 26,19,500 (Twenty-Six Lakh Nineteen Thousand and Five Hundred) Equity Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital from the public shareholders of the P.M. Telelinks Limited (the ‘‘Target Company’’) under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

1	Date	06th January, 2026						
2	Name of the Target Company (TC)	P.M. Telelinks Limited						
3	Details of the Offer pertaining to TC	The offer is being made by the Acquirer in term of Regulation 3(1) and Regulation 4 read with other provisions of the SEBI SAST Regulations, 2011 for the acquisition of upto 26,19,500 (Twenty-Six Lakh Nineteen Thousand and Five Hundred) Equity Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital from the public Shareholders of the P.M. Telelinks Limited						
4	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	BSL Infrastructure Limited (Acquirer). There is no other person is acting in concert with the Acquirer for the purposes of this open offer.						
5	Name of the Manager to the offer	CapitalSquare Advisors Private Limited 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (E), Mumbai – 400 093, Maharashtra, India Telephone Number: 022 6684 9999/ 022 6684 9948 Email Address: mb@capitalsquare.in Website: www.capitalsquare.in SEBI Registration Number: INM000012219 Validity: Permanent Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863						
6	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Following stated are Members of the Committee of Independent Directors of the Target Company (IDC Members): <table><tr><td>[Name of the IDC Member]</td><td>Designation</td></tr><tr><td>1. Mr. Patilolla Laxmi Kanth Reddy</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>2. Mr. Sripal Dadigala</td><td>Member</td></tr></table> All members of the IDC were present at the meeting and the recommendations were approved unanimously by them.	[Name of the IDC Member]	Designation	1. Mr. Patilolla Laxmi Kanth Reddy	Chairperson	2. Mr. Sripal Dadigala	Member
[Name of the IDC Member]	Designation							
1. Mr. Patilolla Laxmi Kanth Reddy	Chairperson							
2. Mr. Sripal Dadigala	Member							
7	IDC Member’s relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	a) IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC Members are holding any Equity Shares in the Target Company. None of the IDC Members hold any contracts or any relationship, nor are they related in anyway with the Target Company other than acting in directorship in the Target Company.						
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members hold any Equity Shares/ other securities in the Target Company and hence have not traded in the Equity shares of the Target Company.						
9	IDC Member’s relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC (a) are directors on the boards of the Acquirers: (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirers; and (c) have any contracts/relationship with the Acquirers						
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable.						
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	On perusal of the aforesaid Offer Documents, the IDC Members believe that this Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations. Based on the review of the Offer Documents, the members of IDC have considered the following for making recommendations: a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the opinion that the Offer Price of ₹6.81/- (Six Rupees and Eighty-One Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.						
12	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company’s website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the opinion that the Offer Price of ₹6.81/- (Six Rupees and Eighty-One Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.						
13	Disclosure of Voting Pattern of the IDC Meeting	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.						
14	Details of Independent Advisors, if any	None						
15	Any other matter(s) to be highlighted	None						

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in, or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and behalf of the Committee of Independent Directors of
P.M. TELELINKS LTD
Sd/-
Mr. PATILOLLA LAXMI KANTH REDDY
Chairperson
Committee of IDC
DIN: 07169994

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी - चित्तौरा, बहराइच
पत्रांक 1978 / मण्डार – लिं / वृक्ष नीलामी-सूचना / 2025–26
दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड चित्तौरा के कार्यालय परिसर में लग्ने 202 यूकेलिप्टस (कुल – 202 पेड़ जिसका मूल्यंकन मुं0–619940–00रु० है) वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28.01.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे जिला स्तर से अधिकृत अधिकारी तथा वन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में एवं अयोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा विकास खण्ड परिसर में सम्पन्न होगी। वृक्षों को किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

1. बोली लगाने वाले व्यक्ति को मुं0 50000.00 रूपया विकास खण्ड चित्तौरा में कार्यरत कैशियर के पास जमानत के रूप में नकद जमा करना होगा, तभी वह बोली लगा सकता है और उसकी बोली मान्य होगी।

2. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की जमानत के रूप में जमा धनराशि का समायोजन करते हुये शेष धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम दो कार्य दिवसों में जमा करना होगा। अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।


3. बोली बोलने के समय वही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है जिस व्यक्ति द्वारा बोली हेतु निर्धारित जमानत धनराशि जमा की जायेगी।

4. समस्त वृक्षो को तीन दिवस के अन्दर जड़ सहित उठान करना होगा यदि जड़ें नही निकाली जाती है तो जड़ों की निकासी की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार के जमानत से काट ली जायेगी।

5. वृक्ष कटान में यदि कार्यालय भवन अथवा बाउन्ड्री की क्षति होगी तो उसकी मरम्मत/निर्माण का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

6. अयोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना बताये बोली को निरस्त कर दे अथवा नीलामी की तिथि एवं समय बढ़ा दें।

(विजय कुमार सिंह)
खण्ड विकास अधिकारी, चित्तौरा-बहराइच

**J&K Bank**
होमिन्स परिसर/बिना वसुली शाखा
केन्द्रीय कार्यालय : दिल्ली प्लॉट नं. 132-134 सेक्टर 44, गुडगांव :
(देली) 0124-4715800, ईमेल : irdel@jkbmail.com

जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
होमिन्स परिसर/बिना वसुली शाखा
केन्द्रीय कार्यालय : दिल्ली प्लॉट नं. 132-134 सेक्टर 44, गुडगांव :
(देली) 0124-4715800, ईमेल : irdel@jkbmail.com

ई-नीलामी सूचना (सर्फेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवलंबित/यों के डिक्लेर) 'परिपत्र, IV-ए, नियम 8(6) के प्रावधान का संदर्भ ले'

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटर्स को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता (जम्मु और कश्मीर बैंक लिमिटेड) के पास निरखी रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति, जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता (जम्मु और कश्मीर बैंक लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सर्फेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत ले लिया गया है, को 'जेसा है' 'जेसा है, वैसा ही' और 'जो कुछ भी उपलब्ध है' तथा 'बिना किसी विकल्प के' के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित तिथियों पर, संबंधित उधारकर्ताओं/सुरक्षित लेनदारों को देय राशि की वसुली की जाएगी। अवरुधित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली ब्याज राशि क्रमशः उल्लिखित है।

उधारकर्ता / गारंटर्स की नाम तथा पता
1. **बैसर्वा श्री पार्श्वनाथ गेयर, प्रोप. श्री पारस जैन, यूनिट का पता 127/6, एफएफ वाई नं. IX, गली बतारान, बरशाबुल्ला चौक, चावडी बाजार, दिल्ली-110006**
2. **श्री पारस जैन पुत्र स्व. श्री बी. के. जैन, निवासी-** एफएफ, 2181, गली हनुमान प्रसाद, मस्जिद खजूर, चावडी बाजार, दिल्ली-110006 (उधारकर्ता/बैंककर्ता)।
3. **श्रीमती रंजना जैन पत्नी श्री पारस जैन, निवासी-** मकान नंबर 2181, गली हनुमान प्रसाद, मस्जिद खजूर, चावडी बाजार, दिल्ली-110006 (गारंटर्स)


नीलामी के अंतर्गत प्रभावित आवसुत सुख्या का विवरण
‘दुकान संख्या 127/6, प्रथम मंजिल पर स्थित, नगर निगम संख्या 127, वाई संख्या IX, गली बतारान, बरशाबुल्ला चौक, चावडी बाजार, दिल्ली-110006 में स्थित संपत्ति का हिस्सा, जिसका साझा प्रवेश द्वार संपत्ति संख्या 118, मुख्य चौक बरशाबुल्ला चौक, चावडी बाजार से है, जिसका आधार क्षेत्र लगभग 6.90 वर्ग मीटर है, कुल क्षेत्रफल 76.23 वर्ग मीटर में से, जिसमें नीचेवा के भूमि में अनुपस्थित अधिकार शामिल हैं, छत के अधिकार, स्वामित्व, हित, दावे, सुव्यापिकार, विशेषाधिकार और सहायक वस्तुएं आदि को छोड़कर।’

आरक्षित मूल्य:	₹ 25.65 लाख	ईएमडी राशि : ₹ 2.57 लाख	बोली बुद्धि : ₹ 0.30 लाख
बकाया देयराशि/का	₹ 38.72 लाख	31.12.2025 को अनुसार	ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22-01-2026 अप. 3:00 से 4:00 बजे
संपर्क व्यक्ति एवं शाखा का नाम एवं नंबर :	रियाज अहमद मीर, मोबाइल नंबर : 9906980479, शाखा प्रबंधक, हानिग्रस्त परिसर/गिरा वसुली शाखा। श्री श्रीश्री कोल, मोबाइल नंबर 8700252377, शाखा प्रबंधक, चावडी बाजार, दिल्ली (देस्तारजनों के उद्देश्यार्थ)	जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, शाखा : चावडी बाजार, दिल्ली	आईएफएससी कोड : JAKAACHAWRI खाता नाम : आरटीजीएस इंटरनेट रसीद खाता संख्या : 0274072000000001

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :
I. ई-नीलामी 'जेसा है, जहाँ है', 'जेसा है, जो है' और 'कोई शिकायत नहीं' के आधार पर आयोजित की जा रही है और ऑनलाइन संचालित की जाएगी। संपत्ति का पूरा विवरण और सभी नियम एवं शर्तें युक्त बोली दर्तावेज/प्राप्त वेबसाइट <http://sarfaesi.auctiontiger.net> से प्राप्त किया जा सकता है और वही जमा किया जा सकता है (संपर्क व्यक्ति: राम शर्मा – 9978591888, संपर्क नंबर: 079-68138880/68136837, मोबाइल : +91 9265562821/18, ईमेल : support@auctiontiger.net)।
II. प्राधिकृत अधिकारी के सौजन्य ज्ञान और जानकारी के अनुसार, यहाँ विशेष रूप से उल्लिखित जानकारी के अलावा, संपत्तियों पर कोई ऋणधार नहीं है। हालाँकि, इसका बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, संपत्ति पर भार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति/यों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देय के संबंध में स्वयं स्वयं कर से जाँच कर लेनी चाहिए। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी व्यक्ति/पक्ष के दावों/अधिकारों/देय के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। बोलीदाताओं को ऊपर दी गई संपत्तियों के विवरण, स्थिति या सटीकता के बारे में स्वयं सुनिश्चित होना चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी नवीन और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रही है।
III. इसका बोलीदाता अपनी पेशकश और ईएमडी (मुगलान राशि) वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से जमा करें (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड <http://sarfaesi.auctiontiger.net> पर नाम पंजीकृत करके निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं)। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। अवरुधित मूल्य का 10: ईएमडी (मुगलान राशि) एम्प्लेट/आईएफएससी/आरटीजीएस (ईएमडी मुगलान विवरण ऊपर दिया गया है) के माध्यम से 21-01-2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले देय है।। कृपया ध्यान दें कि बैंक/बिनाई ड्राफ्ट को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।।
IV. यह निम्नी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुख्या हित प्रदान अधिनियम, 2002 के तहत निष्पक्षित निष्पक्ष/शर्तों के अधीन होगी।
V. अधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए पूर्ण हैं और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें वेबसाइट <https://www.auctiontiger.net> पर उपलब्ध हैं।

निर्वाक : 08-01-2028, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

**jmj Fintech Ltd.**
Corporate Identification Number : L51102T21982PLC029253
Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand,Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy,Coimbatore, Coimbatore North, Tamil Nadu, India

